



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21—जुलाई 27, 2012 (आषाढ़ 30, 1934)
 No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21—JULY 27, 2012 (ASADHA 30, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जून 2012

सं. ए. 22012/2/2012-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री शकील पी. अहमद, आईएस (एम:1995) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जून, 2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करती हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2012

सं. ए. 22019/1/2010-पीएमई--प्रधान मंत्री कार्यालय की दिनांक 13.06.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 31.05.2013 तक बढ़ाती हैं :--

1. प्रो. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग
2. प्रो. प्रमोद टण्डन, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग

3. सुश्री अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजसमंद, राजस्थान

4. श्री एन. सी. सक्सेना

5. डॉ. ए. के. शिव कुमार, सलाहकार, यूनीसेफ

6. श्री दीप जोशी

7. सुश्री अनु आगा, थर्मैक्स लिमिटेड, पुणे

8. सुश्री फराह नक्वी

9. सुश्री मीरई चटर्जी, 'सेवा', अहमदाबाद

2. राष्ट्रपति, निम्नलिखित को भी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में दिनांक 31.05.2013 तक नियुक्त करती हैं :--

1. श्री मिहिर शाह, सदस्य, योजना आयोग

2. श्री आशीष मंडल, एक्सन फॉर सोशल एडवॉन्समेंट, भोपाल

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. आरएस/3/1/3/2012/57-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निदेशक के रूप में कार्यरत श्री आनन्द कुमार सिंह को 01 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. आरएस.20/1/2012/58-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री सुरेन्द्र कुमार वाट्स, संयुक्त सचिव 30 जून, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस.20/1/2012/59-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री मुकेश कुमार, उप निदेशक (पी एंड पी) 30 जून, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 4 जुलाई 2012

सं. आरएस.3/2/1/2012/60-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत उप-निदेशक (लार्डिस) श्री त्रिलोक नाथ मिश्रा को 29 जून, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 तथा 8,000/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 18 जून 2012

सं. 6/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमति/कु.		
1.	बी. गोपाल कृष्ण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक इंजीनियर-एच

1	2	3	4
	श्री/श्रीमति/कु.		
2.	डॉ. आर. रामकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3.	साजी ए कुरियकोसे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
4.	एन. एम. देसाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
5.	डी. के. दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
6.	राजकुमार अरोरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
7.	ए. वी. आपटे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
8.	जी. एफ. वोहरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
9.	डॉ. सी. एम. किशतवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
10.	टी. पी. श्रीनिवासन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
11.	अरूप राय चौधरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
12.	डी. आर. गोस्वामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
13.	के. पी. भरुचा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
14.	डॉ. आर. पी. सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
15.	नितांत दुबे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
16.	डॉ. संदीप आर ओझा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
17.	संजीव कुलश्रेष्ठा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
18.	एम. बी. महाजन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
19.	डॉ. पी. एस. धिनवा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
20.	प्रशांत भार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
21.	एस. आर. जोशी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
22.	वी. के. महिराले	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
23.	सुर्जन सिंह चादर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
24.	मिनि रामन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
25.	कुरियन माथ्यू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
26.	एस. पी. काछेला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
27.	डॉ. सुभाष चंद्र बेरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
28.	आर. के. मेहता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
29.	गोविन्द राजुलु कन्दा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
30.	बी. बी. बोकरवाडिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
31.	आर. एम. दुगर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
32.	के. के. मेहता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
33.	डॉ. अरविन्द कुमार सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
34.	धर्मे श बन्साली	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
35.	जी. जे. दोशी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
36.	चन्द्र प्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
37.	बी. एन. शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ

1	2	3	4
श्री/श्रीमति/कु.			
38. कुहेलिका बेरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	
39. ए. टी. राजकोटवाला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	
40. विष्णुकुमार डी पटेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	
41. वी. विश्वनाथन वेदम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	
42. वी. आर. भटनागर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	
43. अंजु मलहोत्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
44. शालिनी उज्जवल गंगेले	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
45. संदीप आर सोमानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
46. आर. एन. गौडा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
47. दीपक कुमार थिरनिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
48. जे. पी. जानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
49. बी. पी. राठोड	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
50. चन्द्र प्रकाश सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
51. पंकज कुमार गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
52. महेश सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
53. कण्णन वी अय्यर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
54. जिदेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
55. रवि शंकर चौरसिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
56. शैलेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
57. जय रथी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
58. जे. के. पनशेरिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	
59. सुमित शुक्ला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
60. विनय यादव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
61. विनीत कुमार दाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
62. निधि जैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
63. हिरेन अरविंद राम्भया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
64. रंजन परणामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
65. प्रियंका गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
66. अनीस पी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
67. धर्मेन्द्र कुमार पाण्डे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
68. आर. फणी राजशेखर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
69. रतीश रामकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
70. जसवंत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
71. धवल ए वर्तक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
72. एन. एम. पञ्चानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
73. अमित कुमार गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	

1	2	3	4
श्री/श्रीमति/कु.			
74. रिशि कोशिक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
75. सत्य प्रिय मित्तल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
76. स्वाती दुग्गल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	
77. कमल कुमार प्रजापत	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमति/कु.	
1.	अच्चानी अंकुर दिलिप	16.12.2011
2.	देवेरा वेंकटेशुलु	21.12.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. एफ. 6(1961)/2006-प्रशासन 1--राष्ट्रपति, योजना आयोग में 10,000/- रु. के बैंड के साथ वेतन बैंड-4, 37,400--67,000/- रु. में सलाहकार (कृषि) के पद पर डॉ. वी. वी. सदायते की प्रतिनियुक्ति की अवधि को वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि के समाप्ति नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 10.01.2012 से छः माह के लिए बढ़ाते हैं।

2. उन्हें अपने कैंडिडेट कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को रिपोर्ट करने के लिए 9 जुलाई, 2012 को अपराह्न में योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. मुखर्जी, निदेशक

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. ए-19011/27/2012-यू आई डी ए आई--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 जून, 2012 के का. ज्ञा. सं. 26/3/2007-ई ओ (एम एम-1) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) के दिनांक 13.06.2012 के का. ज्ञा. सं. ए-12013/21 (ए डी जी-बैंगलोर)/09-यू आई डी ए आई के अनुसरण में श्रीमती ई. पी. निवेदिता, आई ए एण्ड ए एस (93) ने दिनांक 25.06.2012 (पूर्वाह्न) से बैंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

में 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड + 8,700/- रुपए के वेतन ग्रेड में गैर केन्द्रीय स्टाफिंग योजना पद के तहत 14.04.2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरूण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. I-11014/02/2012-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह, आई.पी.एस. (उ.प्र.:2010) का विवाह सुश्री ऐशा पाण्डे, आई.पी.एस. (ए.जी.एम.यू.टी.:2010) के साथ हो जाने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजीव रंजन सिंह, आई.पी.एस. (उ.प्र.:2010) का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश से ए.जी.एम.यू.टी. के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में किया जाता है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2012

सं. 24012/12/2012-स्थापना(ख)--राष्ट्रपति, श्री जय प्रकाश गर्ग, आई.टी.एस. (1997), को कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), इलाहाबाद में दिनांक 04 जून, 2012 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. 23012/5/2012-अ.भा.से.-III--वर्ष 1990 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तथा बिहार संवर्ग में रखी गई सुश्री बिन्धेश्वरी नेगी को उनका नाम सुश्री बिन्धेश्वरी नेगी से बदल कर सुश्री तेनजिन नीमा बिन्धेश्वरी करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, उन्हें सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए सुश्री तेनजिन नीमा बिन्धेश्वरी के नाम से जाना जाएगा।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/26/2011-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, ओडिसा संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक

सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके सामने दर्शायी गई तिथि से स्थाई करते हैं :--

क्रम नाम सं.	बैच	स्थायीकरण की तारीख
(सर्वश्री/सुश्री)		
1. रूपा रोशन	2006	29.08.2008
2. अरविन्द अग्रवाल	2007	18.08.2009
3. बलवंत सिंह	2007	18.08.2009
4. रविन्द्र प्रताप सिंह	2007	30.11.2009

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/08/2012-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, बिहार संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके सामने दर्शायी गई तिथि से स्थाई करते हैं :--

क्रम नाम सं.	बैच	स्थायीकरण की तारीख
(सर्वश्री/सुश्री)		
1. आशिमा जैन	2008	01.09.2010
2. बुद्धभायी कार्तिकेय ढांझी	2008	01.09.2010
3. गिरिवर दलाल सिंह	2008	01.09.2010
4. रमनदीप चौधरी	2008	01.09.2010

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/12/2012-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करते हैं :--

नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
श्री आशीष सिंहमार	2008	01.09.2010

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2012

सं. 49 : (फा. सं. ए-19012/6/2012-प्रशा. 1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री आर. के. शर्मा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 02529 ए), को

दिनांक 15.05.2012 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में सहायक महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (उप सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2012

सं. 10/2012 : (फा. सं. ए-19013/12/2012-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग के संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग के दिनांक 12 जून, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/9/2010-सीएस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सी.एस.-II (ए) के अनुसरण में राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के के.सं.आ.से. के नियमित निजी सचिव सुश्री रेणु पाठक को दिनांक 01.06.2012 (पूर्वाह्न) से राजस्व विभाग में चयन सूची, वर्ष 2012 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. 2012 का 03 (फा. सं. ए-24012/103/2003-प्रशा. VIक)--भारत के राष्ट्रपति, श्री एम. एस. पदमकुमार, भारतीय राजस्व सेवा (95018) का दिनांक 11 अगस्त, 2008 से केन्द्र सरकार सेवा से त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. 02 (फा. सं. ए-32012/3/2011-प्रशा.-IIख)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) के निम्नलिखित रासायनिक परीक्षक ग्रेड-II स्तर के अधिकारियों को ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के साथ पी बी-3 (15,600--39,100/-) में रासायनिक परीक्षक ग्रेड-I के स्तर पर कालम 3 में उनके नाम के समक्ष लिखी तारीख से नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	रासायनिक परीक्षक ग्रेड-I के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
1.	श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता	23.02.2012
2.	श्री के. सी. पिल्लै	12.10.2011
3.	श्री वी. बी. चौरसिया	23.09.2011

1	2	3
4.	श्री श्रवण कुमार मित्तल	22.09.2011
5.	श्री ए. पी. श्रीवास्तव	22.09.2011
6.	श्रीमती रीता सक्सेना	22.09.2011
7.	श्री आर. के. वाष्णीय	03.10.2011

बी. के. मन्थन, अवर सचिव

सं. 03 (फा. सं. ए-32012/3/2011-प्रशा.-II ख)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) के श्री एस. सी. सुराना, रासायनिक परीक्षक ग्रेड-II को ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के साथ पीबी-3 (15,600--39,100/-) में रासायनिक परीक्षक ग्रेड-I के स्तर पर दिनांक 22.09.2011 से स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत करते हैं।

बी. के. मन्थन, अवर सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. 04 (फा. सं. ए-32012/6/2009-प्रशा.-IIख)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के श्री पी टी चाको को सहायक निदेशक (रा.भा.) के स्तर से पदोन्नत करके ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के साथ पीबी-3 (15,600--39,100/-) में उप निदेशक (रा. भा.) के स्तर पर दिनांक 07.07.2011 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. मन्थन, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2012

सं. ए-12011/7/2009-प्रशा. II--मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के 15.06.2012 के सं. 18/12/2003-ईओ (एस एम-I) के अनुमोदन के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री की सलाहकार श्रीमती ओमिता पॉल के कार्यकाल को वित्त मंत्री के पद पर श्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के सह-आवधिक बनाते हुए 25.06.2012 से और आगे बढ़ाते हैं।

अशोक कुमार, उप सचिव

दिनांक 27 जून 2012

सं. ए-19011/6/2012-प्रशा. 2--राष्ट्रपति, श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से. (केरल : 94) को 27 जून, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2012

सं. ए-19012/2/2007-डीआरटी (पार्ट)--ऋण वसूली अधिकरण, मद्रास में पीठासीन अधिकारी के रूप में हुई अपनी नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त होने पर श्री डी. स्टेनले डेविड दिनांक 19 जून, 2012 के अपराह्न से पीठासीन अधिकारी का पदभार छोड़ देंगे।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जुलाई 2012

सं. पीएफजी(991)/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.07.2012 के आदेश सं. 3/1/2012 सीएस-I (डी) (पी.II) के अनुसार श्री के. गुरुमूर्ति को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड अधिकारी (उप सचिव) से वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के पद पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 9 जुलाई, 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड-4 में रु. 37,400--67,000/-+8,700/- (ग्रेड पे) पर नियुक्त करते हैं।

जे.एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

[वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)]

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2012

सं. ए-35013/1/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, श्री वलेती प्रेमचंद, आई.डी.ई.एस. (1994) को सैट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत 22 जून 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 21 जून 2017 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में निदेशक के नाते नियुक्त करते हैं, जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 जून 2012 के का. ज्ञापन सं. 10/14/2011-ई.ओ. (एम.एम.-1) द्वारा संसूचित किया गया है।

2. श्री वलेती प्रेमचंद, आईडीईएस (1994) को उसी तारीख अर्थात् 22 जून 2012 (पूर्वाह्न) से श्री श्रवण कुमार, सी.पी.ई.एस. (1998) के स्थान पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में निदेशक (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. ए-19011/789/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री विजय शंकर मदान, आईएएस (यूटी : 81) को 2 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2012

सं. ए-38011/2/2012-मा.सं. II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री डी.के. शर्मा, सहायक निदेशक (लेखा) को 31.05.2012 से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 18 जून 2012

सं. ए-23011/08/2012-मा.सं. II--राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 20.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में सुश्री पुष्पा सरोहा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे-बैंड (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड पे रु. 6,600/- सहित 01.05.2012 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर प्रवर सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. सुश्री पुष्पा सरोहा, पीपीएस को विद्यमान रिक्ति के प्रति उर्वरक विभाग की कार्मिक सूची में शामिल किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

औषध विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. ए-12011/06/2012-स्थापना (एनपीपीए)--अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप श्री के.के. जैन, निदेशक (एम एण्ड एस) दिनांक 30.06.2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुये।

संजय छाबडा, अवर सचिव

सं. ए-12011/05/2012-स्थापना (एनपीपीए)--अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप श्री ओम प्रकाश, सदस्य सचिव दिनांक 30.06.2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुये।

संजय छाबडा, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2012

सं. 2(9)/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सीएस-1(एस) के अनुसरण में, श्री सुनील शर्मा, सहायक की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.12.2012 तक अथवा भर्ती के सामान्य चैनलों के माध्यम से नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, तथा

3. तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(9)/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सीएस-1(एस) के अनुसरण में, श्री आर.पी. सूद, सहायक की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.12.2012 तक अथवा भर्ती के सामान्य चैनलों के माध्यम से नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, तथा

3. तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(9)/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सीएस-1(एस) के अनुसरण में, सुश्री जसविंदर कौर, सहायक की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.12.2012 तक अथवा भर्ती के सामान्य चैनलों के माध्यम से नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, तथा

3. तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(9)/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सीएस-1(एस) के अनुसरण में, सुश्री ऊषा कपूर, सहायक की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.12.2012 तक अथवा भर्ती के सामान्य चैनलों के माध्यम से नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, तथा

3. तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री आर.के. गुप्ता की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.05.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री एस.के. बासु की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.05.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री मुकेश कुमार की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.5.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री सी. ए. जोसफ की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि

31.5.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री के. बालन नायर की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.5.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री एच. के. वधवा की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.5.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री आशीष मल्होत्रा की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.5.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, सुश्री सरिता तनेजा की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि

31.5.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(23)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मई, 2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, श्री आर. के. सक्सेना की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31.5.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.5.2010, 3.9.2010, 11.11.2010, 11.8.2011 और 15.12.2011 के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जून 2012

सं. ए-12025/1/2011-एनटीएच (स्था.)--राष्ट्रपति, श्री अनिमेश दास को राष्ट्रीय परीक्षण शाला में रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक एस बी (भौतिक सिविल) के पद पर दिनांक 26.4.2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2012

मिसिल सं. ए-12011/3/2012-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/10/2012-सीएस-1 के अनुसरण में कृषि और सहकारिता विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री एस. के. विज को दिनांक 28 जून, 2012 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड और 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 जून 2012

सं. ए-38018/01/2012-स्थापना--वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पीपीएस के पद पर कार्यरत श्री चण्डी प्रसाद को 30 जून,

2012 को सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी होने पर, महामहिम राष्ट्रपति सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त करते हैं।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जून 2012

सं. 23012/02/2012-आईएफएस. II--सुश्री दीपिका गोयल, भारतीय वन सेवा के 2010 बैच की परीक्षार्थी को, श्री कृष्ण बाजपेयी के साथ उनका विवाह होने के परिणामस्वरूप दीपिका गोयल से अपना नाम परिवर्तित करके दीपिका बाजपेयी करने की अनुमति दी जाती है और अब से वे सरकारी प्रयोजनों के लिए दीपिका बाजपेयी के नाम से जानी जाएंगी।

एस. एस. बधावन, निदेशक

दिनांक 22 जून 2012

सं. 17013/08/2011-आईएफएस. II--जबकि छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति हेतु श्री सुरेश प्रसाद पैक्रा तथा श्री सुवर्ण सिंह कंवर के नामों वाली, आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7(3) के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित वर्ष 2007-क हेतु चयन सूची इस मंत्रालय के संदर्भ संख्या 17013/6/2010-आईएफएस-II, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के तहत अधिसूचित की गई थी।

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9(1) के साथ पठित आईएफएस (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8(1) के उपबंधों के अनुसार मंत्रालय के पत्राचार सं. 17013/6/2010-आईएफएस. II, दिनांक 11 फरवरी, 2011 द्वारा प्रभावी हुई थी।

3. जबकि छत्तीसगढ़ के एसएफएस अधिकारी श्री बी. पी. सिंह जिनका नाम चयन सूची 2007-क की पात्रता सूची में था, को उन पर अधिरोपित दंड के कारण चयन समिति द्वारा अयोग्य माना गया था।

4. जबकि तत्पश्चात् श्री बी. पी. सिंह के दिनांक 01.01.2011 के अपील आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा उन पर अधिरोपित दंड को अपास्त किया गया था।

5. जबकि श्री बी. पी. सिंह ने केट-प्रधान बेंच नई दिल्ली में आवेदन संख्या 59/2011 डाला था जिसने अपने आदेश दिनांक 25.8.2011 में भारतीय वन सेवा में उनके समावेशन पर विचार करने के लिए पुनरीक्षा चयन समिति की बैठक आयोजित करने का निदेश दिया।

6. और जबकि माननीय न्यायाधिकरण के निदेशों के अनुपालन में 23 फरवरी, 2012 को आयोजित पुनरीक्षा चयन समिति की बैठक में वर्ष 2007-क की चयन सूची में श्री बी. पी. सिंह के समावेशन की सिफारिश की गई तथा यूपीएससी ने पत्र सं. 10/25(1)/2012-एआईएस दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7(3) के उपबंधों के अनुसार इसे अनुमोदित किया।

7. अतः अब श्री भानु प्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय वन सेवा की वर्ष 2007-क की चयन सूची में शामिल किया गया है। संशोधित चयन सूची अब निम्न प्रकार से होगी :--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	सुरेश प्रसाद पैक्रा	02.12.1963
1ए.	भानु प्रताप सिंह	01.05.1964
2.	सोबरन सिंह कंवर	01.07.1963

एस. एस. बधावन, निदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 25 जून 2012

सं. ए-12025/98/2004-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रूचि गुप्ता को दिनांक 29 अगस्त, 2007 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. रूचि गुप्ता को केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. रूचि गुप्ता नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. ए-31013/3/2011-सीएचएस-V--राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-अध्यापन उप-संवर्ग के निम्नलिखित विशेषज्ञ ग्रेड-II को उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से स्थायी रूप से नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	विशेषज्ञ ग्रेड-II के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तारीख	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3	4
1.	डॉ. मधु दयाल, संवेदनाहरण	24.09.2007	24.09.2008
2.	डॉ. नमिता अरोड़ा, संवेदनाहरण	28.08.2007	28.08.2008
3.	डॉ. अरूण कृष्ण, आयुर्विज्ञान	22.05.2008	22.05.2009
4.	डॉ. प्रेम चौधरी, आयुर्विज्ञान	30.10.2009	30.10.2010

1	2	3	4
5.	डॉ. संजय नईडिंग, आयुर्विज्ञान	09.03.2010	09.03.2011
6.	डॉ. लता कपूर, सूक्ष्म जीवविज्ञान	10.11.2008	10.11.2009
7.	डॉ. शालिनी मल्होत्रा, सूक्ष्म जीवविज्ञान	25.11.2007	25.11.2008
8.	डॉ. मालिनी आर. कपूर, सूक्ष्म जीवविज्ञान	12.03.2008	12.03.2009
9.	डॉ. सिमरीता सिंह, सूक्ष्म जीवविज्ञान	07.11.2008	07.11.2009
10.	डॉ. रवीन्द्र सिंह सेठी, नाभिकीय चिकित्सा	17.01.2007	17.01.2008
11.	डॉ. सरिता शामसुन्दर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	29.11.2006	29.11.2007
12.	डॉ. दीपक जोशी, अस्थि रोग	17.09.2008	17.09.2009
13.	डॉ. सुगंधा आर्या, बाल चिकित्सा	03.11.2009	03.11.2010
14.	डॉ. अनुराग अग्रवाल, बाल चिकित्सा	26.10.2009	26.10.2010
15.	डॉ. केशराम मीणा, बाल चिकित्सा	16.11.2009	16.11.2010
16.	डॉ. नखट जमील मजहरी, विकृति विज्ञान	30.01.2008	30.01.2009
17.	डॉ. हेमलता रामदोस, विकृति विज्ञान	31.12.2008	31.12.2009
18.	डॉ. आर. पी. बेनीवाल, मनश्चिकित्सा	29.12.2009	29.12.2010
19.	डॉ. उत्तम कुमार, त्वचा रोग विज्ञान	03.06.2009	03.06.2010
20.	डॉ. शशांक शेखर, त्वचा रोग विज्ञान	14.05.2009	14.05.2010
21.	डॉ. स्नेह जयंत, शल्यचिकित्सा	24.08.2007	24.08.2008
22.	डॉ. मनोज कुमार दोकनिया, शल्यचिकित्सा	07.05.2008	07.05.2009
23.	डॉ. देवदत्त पोददार, शल्यचिकित्सा	01.07.2008	01.07.2009

1	2	3	4
24.	डॉ. निखिल तलेवार, शल्यचिकित्सा	01.10.2009	01.10.2010
25.	डॉ. अशोक कुमार शर्मा, शल्यचिकित्सा	03.09.2009	03.09.2010

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2012

सं. 12023/10/2009-स्था. II--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा डॉ. रमेश कुमार सीनियर डीईएस, केवीके, सोनीपत [वर्तमान में विभाग में उपायुक्त (आईएनएम) के पद की प्रतिनियुक्ति पर] को पूर्वाह्न 1 मई, 2012 से 30 मई, 2013 तक, अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अल्पकालिक संविदा आधार पर 8,700/- रु. ग्रेड वेतन के साथ 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान में वेतन बैंड-4 (14,300-400-18,300/- रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान) में कृषि एवं सहकारिता विभाग में, अपर आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद हेतु नियुक्त किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 2012

सं. 27-3010/2012-स्था. I--राष्ट्रपति, द्वारा, श्री सिराज हुसैन, आईएएस (उ. प्र. : 79) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में अपर सचिव के रूप में आगामी आदेशों के आने तक 07 जून, 2012 से नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 जून 2012

सं. 11013/1/2009-स्था.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री प्रशांत एस. लोखंडे, भा.प्र.से. (एजीएमयूटी:2001) को निजी सचिव के रूप में उनके पांच वर्षों की शेष अवधि अर्थात् 25.7.2015 तक के लिए पारिष्क शिफ्ट आधार पर अथवा कोर्टमिनस आधार पर अथवा जब तक वह मंत्रीजी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं करते अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 8.6.2012 के अपराह्न से माननीय कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 जून 2012

सं. 27-3012/2012-स्था. I--वर्ष 2011 की सीएसएस वरिष्ठ चयन श्रेणी (निदेशक) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक

एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 जून, 2012 के का.आ. सं. 3/1/2012-सी.एस.आई(डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा, श्रीमती पदमजा सिंह को वेतन बैंड-4 (37,400--67,000 रु.) के वेतनमान में 8,700/- रु. ग्रेड वेतन के साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग में सी.एस.एस. के वरिष्ठ चयन श्रेणी (निदेशक) में 20 जून, 2012 से नियुक्त किया जाता है।

संदीप कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. 4-10/2011-विस्तार--राष्ट्रपति, श्री सी. एस. मथाड़, सहायक सम्पादक (अंग्रेजी) विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली को इसी निदेशालय में संयुक्त निदेशक (फार्म सूचना), जी.सी.एस., समूह 'क' राजपत्रित के पद पर वेतनमान रु. 15,600--39,100 (पे बैंड-3) + रु. 6,600/- ग्रेड पे में नियमित पदोन्नति के आधार पर दिनांक 23.05.2012 के पूर्वाह्न से नियुक्त करती हैं।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2012

सं. ए. 32011/9/2006-ई-1--राष्ट्रपति, सुश्री वृंदा सरूप, आई.एस. (यूपी : 81) को 5 जून 2012 (पूर्वाह्न) से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2012

सं. ए. 32011/3/2011-ई-1--राष्ट्रपति, सुश्री अमिता शर्मा, आई.एस. (मध्य प्रदेश : 81) को 29 जून, 2012 के पूर्वाह्न से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2012

सं. 5-2/2012-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 3.3.2011-सी.एस.-II (ए) द्वारा वर्ष 2010 की चयन सूची में सी.एस.एस.एस. के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. संवर्ग में निम्नलिखित निजी सचिवों (पी.एस.) को नियमित आधार पर निजी सचिवों (सी.पी.एस.)

के पे बैंड-3, 15,600--39,100 रुपये ग्रेड पे 6,600/- रुपये पर उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	एस. एल. वर्ष	कार्यग्रहण की तारीख
1.	सुश्री लीला राघवन	1993	26.3.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री श्याम सुन्दर	1994	22.3.2012 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री रूपा शर्मा	1996	21.3.2012 (पूर्वाह्न)
4.	सुश्री बिमला	1996	21.3.2012 (पूर्वाह्न)

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2012

सं. 5-1/2011-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जून, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/4/2007-ईओ(एम.एम.आई) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्रीमती कल्याणी चड्ढा, आई.आर.एस.एमई (86) की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर दिनांक 25/6/2012 से 25/6/2013 तक एक वर्ष की अवधि बढ़ाते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

सं. 4-23/1987-प्रशा.--महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रीमती कौशल्या देवी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.6.2012 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2012

सं. फा.स. 18-39/2011-ए.एंड.ए.--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली के दो सहायक निदेशकों (अभिलेखागार) को 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित, रु. 15,600--39,100 (पीबी-3) के वेतनमान में नियमित आधार पर प्रोन्नत किए जाने पर, प्रत्येक के नाम के समक्ष प्रदर्शित तारीखों से अगले आदेश तक उप निदेशक (अभिलेखागार) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	डॉ. अंसारूल हक	02.05.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राजेश वर्मा	02.05.2012 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारी अपनी नियुक्ति की तारीख से उप निदेशक (अभिलेखागार) के पद पर दो वर्ष की परीक्षा के अधीन रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो इस अवधि को, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है।

गुलाम मुस्तफा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 जून 2012

सं. ए-19011/04/2008-स्था.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव, श्री के. एम. आचार्य, आईएएस (एमपी : 74), 30 जून, 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

एस. के. मलिक, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जुलाई 2012

सं. ए-12022/2/2007-स्था.I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.06.2012 के पत्र सं. 4/26/2012-ई.ओ.(एसएम-I) के अनुसरण में, श्री अनिल कुमार गोस्वामी, आई.ए.एस. (जेके : 78) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 02.07.2012 (पूर्वाह्न) से सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। वे अगले आदेशों तक सचिव, निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

वीरेन्द्र कुमार, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2012

सं. 19012/05/2004-स्था.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री देवेन्द्र देवरायी दिनांक 30.06.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

एन. रामाकृष्णन, अवर सचिव

दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. 19011/06/2012-स्था.--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 29.05.2012 के कार्यालय आदेश सं. 12016/1/(एसटीएस)/2011-आईएसएस के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री दीप नारायण मंडल को जनजातीय कार्य मंत्रालय में 15,600--39,100 रु. के वेतनमान + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में उप निदेशक के पद पर दिनांक 01.06.2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। श्री मंडल ने दिनांक 01.06.2012 से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एन. रामाकृष्णन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जून 2012

सं. 4(506)/91-कार्मिक I--इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप निदेशक, श्रीमती सीतालक्ष्मी श्रीधर (कर्मचारी कोड सं. 291) अधिवर्षिता की आयु

प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2012 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माने जाएंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 4(295)/85-कार्मिक I--इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर श्री टी. के. सरकार, वैज्ञानिक 'जी' (कर्मचारी कोड 133) दिनांक 30.06.2012 से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त माने जाएंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 4(295)/85-कार्मिक I--इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर श्री रामदीन चौधरी, वैज्ञानिक 'ई' (कर्मचारी कोड 188) दिनांक 30.06.2012 से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त माने जाएंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 जुलाई 2012

सं. पीएफ/3721/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति एतद्वारा डॉ. पी. के. सूरी, कर्मचारी कोड संख्या 3721, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक "एफ", के पद से दिनांक 2/07/2012 की अपराह्न से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, जिससे कि वे दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति ले सकें और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है। डॉ. पी. के. सूरी को निदेश दिया जाता है कि वे दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, दिल्ली को रिपोर्ट करें।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2012

सं. ई(जी.पी.)/2003/1/49--दिनांक 14.08.2008 की अधिसूचना सं. ई(जी.पी.)/2004/1/49 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री बीप्रोजीत दत्ता की भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में 2005-06 पैल में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर नियुक्ति को रद्द समझा जाए।

2. तत्पश्चात् राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के श्री बीप्रोजीत दत्ता की पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 2004-05 पैल पर 14.09.2006 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 28 जून 2012

सं. ई.(जी.पी.)2008/3/13 (विधि)--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के विधि विभाग के निम्नलिखित 4 ग्रुप-बी अधिकारियों को दिनांक 10.05.2012 से ग्रुप 'ए' के वरिष्ठ वेतनमान में वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2009-10 के लिए पैल

श्री आर. पी. बिस्वास (पूर्व रेलवे में कार्यरत)

2010-11 के लिए पैल

1. श्री ए. के. ठाकुर (दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत)

2. श्री एम. आर. सतपती (पूर्व-तट रेलवे में कार्यरत)

3. श्री ए. के. मिश्रा (उत्तर मध्य रेलवे जो कि वर्तमान में कोर/इलाहाबाद में कार्यरत हैं)

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 29 जून 2012

सं. 2010/ई(ओ)II/25/2--श्री दीनानाथ प्रसाद, पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा को 12.03.2012 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी, मेट्रो रेल, कोलकाता के रूप में अनंतिम रूप से नियुक्त किया जाता है।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. ई(ओ)III-2012/आरएन/23--भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री ए. के. जगन्नाथम, (जन्म तिथि : 18.07.1954, डीआईटीएस : 02.01.1983) का एचएमआरडीसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 14.06.2010 से रेलवे सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2012

सं. ए-12026/3/2006-एमए--राष्ट्रपति, श्री भीम राव किरताने, भा. रा.से. (आईटी : 2002) को दिनांक 04.06.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई में उप महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी. शशीकुमार, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2012

सं. ए-11013/2/2011-ई-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 07.06.2012 के का. आदेश सं. 1/13/2009-ई.ओ. (एमएम.-I) के अनुसरण में, श्री एन. वेंकटरमन को 37,400--67,000/-रु. के पे बैंड-4 + 8,700/-रु. के ग्रेड पे में निदेशक स्तर पर दिनांक 20.01.2011 (पूर्वाह्न) से और 5 वर्ष की उनकी अनुमोदित अवधि की शेष अवधि अर्थात् 31.05.2014 तक अथवा मंत्री के साथ सह-अवसानी आधार पर अथवा जब तक वह मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. 15/2012-मि.सं.ए-38012/1/2012-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री रशपाल सिंह जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 जून, 2012 को निवृत्त हो गए हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2012

सं. 10/2012 फाईल सं. 25/1/(4)/2012-स्था.-I--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2010, के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री सौरभ को दिनांक 25.01.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सौरभ कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सं. 11/2012 फाईल सं. 25/1/(1)/2012-स्था.-I--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2010, के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अंकित डुडेजा को दिनांक 07.03.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक

कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री अंकित डुडेजा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सं. 11/2012 (फाईल सं. 25/1/(5)/2012-स्था.-1)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2010, के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री वसंतकुमार वी. को दिनांक 01.05.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री वसंतकुमार वी. कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2012

सं. ए-32013/03/2011-एफ(ए)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री अनिल कुमार एन., वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, फिल्म प्रभाग को दिनांक 14 जून, 2012 की पूर्वाह्न से 6,600/-रु के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/-रु (पीबी-3) के पे बैंड में नियमित आधार पर प्रभारी अधिकारी, वितरण, सामान्य केन्द्रीय सेवा पद, समूह 'क' राजपत्रित (अलिपिकवर्गीय) के पद पर पदोन्नत करती हैं।

एस. बी पाण्डेय, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2012

सं. ए-22011/2/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा इस मंत्रालय की दिनांक 17 अगस्त, 2010 की राजपत्र अधिसूचना सं. ए-22017/1/2007-प्रशा.-I में आंशिक संशोधन करते हुए शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत श्री महमूद अहमद, आईपी और टीए एवं एफएस (1993) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि 27.11.2014 तक बढ़ायी जाती है।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 27th June 2012

No. A-22012/2/2012-PME—The President is pleased to appoint Shri Shakil P. Ahamed, IAS (AM : 1995) as Director in the Prime Minister's Office w.e.f. the forenoon of 25th June, 2012 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 28th June 2012

No. A-22019/1/2010-PME—In continuation of Prime Minister's Office Notification of even number dated 13.06.2011, the President is pleased to extend the term of the following Members of the National Advisory Council upto 31.05.2013.

- (i) Prof. Narendra Jadhav, Member, Planning Commission
- (ii) Prof. Pramod Tandon, North-Eastern Hill University, Shillong
- (iii) Ms. Aruna Roy, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajsamand, Rajasthan
- (iv) Shri N. C. Saxena
- (v) Dr. A. K. Shiv Kumar, Advisor, UNICEF
- (vi) Shri Deep Joshi
- (vii) Ms. Anu Aga, Thermax Ltd., Pune
- (viii) Ms. Farah Naqvi
- (ix) Ms. Mirai Chatterjee, SEWA, Ahmedabad

2. The President is also pleased to appoint the following as members of National Advisory Council upto 31.05.2013.

- (i) Shri Mihir Shah, Member, Planning Commission
- (ii) Shri Ashis Mondal, Action for Social Advancement, Bhopal

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd July 2012

No. RS/3/1/3/2012/57-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Anand Kumar Singh, Director in the Rajya Sabha Secretariat, as Joint Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 1st July, 2012 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 3rd July 2012

No. RS/20/1/2012/58-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Surinder Kumar Watts, Joint Secretary, retired from Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/20/1/2012/59-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Mukesh Kumar, Deputy Director (P&P), retired from Service with effect from the afternoon of 30th June, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 4th July 2012

No. RS/3/2/1/2012/60-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Trilok Nath Mishra, Deputy Director (LARRDIS) in the Rajya Sabha Secretariat as Joint Director (LARRDIS) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 29th June, 2012 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 18th June 2012

No. 6/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2012 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
1.	B. Gopala Krishna	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2.	Dr. R. Ramakrishnan	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3.	Saji A. Kuriakose	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
4.	N. M. Desai	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
5.	D. K. Das	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
6.	Rajkumar Arora	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
7.	A. V. Apte	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
8.	G. F. Vohra	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
9.	Dr. C. M. Krishtawal	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
10.	T. P. Srinivasan	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
11.	Arup Roy Chowdhury	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
12.	D. R. Goswami	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
13.	K. P. Bharucha	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
14.	Dr. R. P. Singh	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
15.	Nitant Dube	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
16.	Dr. Sandip R Oza	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
17.	Sanjeev Kulshrestha	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
18.	M. B. Mahajan	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
19.	Dr. P. S. Dhinwa	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
20.	Prasanta Bhar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
21.	S. R. Joshi	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
22.	V. K. Mahirale	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
23.	Surjan Singh Chadar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
24.	Mini Raman	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
25.	Kurian Mathew	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
26.	S. P. Kachhela	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
27.	Dr. Subhash Chandra Bera	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
28.	R. K. Mehta	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
29.	Govinda Rajulu Kandra	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
30.	B. B. Bokarvadia	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
31.	R. M. Dugar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
32.	K. K. Mehta	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
33.	Dr. Arvind Kumar Singh	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
34.	Dharmesh Bhansali	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
35.	G. J. Doshi	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
36.	Chandra Prakash	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
37.	B. N. Sharma	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
38.	Kuhelika Bera	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
39.	A. T. Rajkotwala	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
40.	Vishnukumar D. Patel	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
41.	V. Vishwanathan Vedam	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
42.	V. R. Bhatnagar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
43.	Anju Malhotra	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
44.	Shalini Ujjwal Gangele	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
45.	Sandip R Somani	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
46.	R. N. Gouda	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
47.	Deepak Kumar Thiraniya	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
48.	J. P. Jani	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
49.	B. P. Rathore	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
50.	Chandra Prakash Singh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
51.	Pankaj Kumar Gupta	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
52.	Mahesh C	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
53.	Kannan V Iyer	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
54.	Jidesh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
55.	Ravi Shankar Chaurasia	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
56.	Shailendra Singh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
57.	Jaya Rathi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
58.	J. K. Pansheriya	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
59.	Sumit Shukla	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
60.	Vinay Yadav	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
61.	Vineet Kumar Dad	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
62.	Nidhi Jain	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
63.	Hiren Arvind Rambhia	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
64.	Ranjan Parnami	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
65.	Priyanka Gupta	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
66.	Anees P	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
67.	Dharmendra Kumar Pandey	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
68.	R. Phani Rajasekhar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
69.	Ratheesh Ramakrishnan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
70.	Jaswant	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
71.	Dhaval A Vartak	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
72.	N. M. Panjwani	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
73.	Amit Kumar Gupta	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
74.	Rishi Kaushik	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
75.	Satya Priya Mittal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
76.	Swati Duggal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
77.	Kamal Kumar Prajapat	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department

of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Achnani Ankur Dilip	16.12.2011
2.	Devara Venkatesulu	21.12.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 3rd July 2012

No. F.6(1961)/2006-Adm.I—The President is pleased to extend the tenure of deputation of Dr. V. V. Sadamate as Adviser (Agriculture) in Planning Commission in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- by a period of six months w.e.f. 10.01.2012 i.e. beyond the date of expiry of his present deputation period in relaxation of rules.

2. He will stand relieved from Planning Commission on 09.07.2012 (A.N.) to report his cadre Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi.

S. MUKHERJEE, Dir.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 2nd July 2012

No. A-19011/27/2012-UIDAI—In pursuance of approval of the Competent Authority as conveyed by Department of Personnel & Training (DoP&T) O.M. No. 26/3/2007-EO(MM-1) dated 04 June, 2012 and UIDAI HQ O.M. No. A-12013/21 (ADG-Bangalore)/09-UIDAI dated 13.06.2012, Smt. E. P. Nivedita, IA&AS (93), has assumed the charge of Assistant Director General (ADG) in the Regional Office of Unique Identification Authority of India in Bangalore w.e.f. 25.06.2012 (FN) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- under Non Central Staffing Scheme post for a period upto 14.04.2015 or until further orders, whichever occurs earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th July 2012

No. I-11014/02/2012-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Uttar Pradesh and the UT Division of the Ministry of Home Affairs, New Delhi, the Central Government hereby transfers Shri Rajiv Ranjan Singh, IPS (UP:2010) from Uttar Pradesh to the IPS Cadre of AGMUT on the ground of his marriage with Ms. Esha Pandey, IPS (AGMUT:2010).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 29th June 2012

No. 24012/12/2012-Estt (B)—The President is pleased to appoint Shri Jai Prakash Garg, ITS (1997), as Regional Director, Staff Selection Commission (Central Region), Allahabad with effect from 04th June, 2012 (Afternoon) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 2nd July 2012

No. 23012/5/2012-AIS-III—Ms. Bindhyeshwari Negi, appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 1990 and borne on the cadre of Bihar, has been permitted to change her name from Ms. Bindhyeshwari Negi to Ms. Tenzin Nima Bindhyeshwari. She will accordingly be recognised as Ms. Tenzin Nima Bindhyeshwari for all official purposes.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14012/26/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Odisha, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
	S/Sh.		
1.	Roopa Roshan (Ms.)	2006	29.08.2008
2.	Aravind Agrawal	2007	18.08.2009
3.	Balwant Singh	2007	18.08.2009
4.	Ravindra Pratap Singh	2007	30.11.2009

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14012/08/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service

borne on the State Cadre of Bihar, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
	S/Sh.		
1.	Ashima Jain (Ms.)	2008	01.09.2010
2.	Budhdhabhatti Kartikey Dhanji	2008	01.09.2010
3.	Giriwar Dayal Singh	2008	01.09.2010
4.	Ramandeep Chowdhary	2008	01.09.2010

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14012/12/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Himachal Pradesh, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against him :—

Name	Batch	Date of Confirmation
Sh. Ashish Singhmar	2008	01.09.2010

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th May 2012

No. 49 (F. No. A-19012/6/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri R. K. Sharma, IRS (IT:02529A) as Assistant Director General, Central Economic Intelligence Bureau (Deputy Secretary Level) in the Department of Revenue for a period of four years with effect from 15.05.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 14th June 2012

No. 10/2012 (F. No. A.19013/12/2012-Ad.IA)—In pursuance to Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A.12026/9/2010-CAS dated 12th June, 2012 and DoP&T's O.M. No. 3/3/2011-CS.II dated 20.03.2012 and 20.04.2012, the President is pleased to appoint Ms. Renu Pathak, a Regular Private Secretary of CSSS of Ministry of Water Resources as Regular Principal Private Secretary (PPS) of CSSS for the

SL Year 2010 in the Department of Revenue with effect from 01.06.2012 (F/N).

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 2nd July 2012

No. 3 of 2012 [F. No. A-24012/103/2003-Ad.VI(A)]—The President is pleased to accept the resignation of Shri M. S. Padmakumar, IRS (95018) from Central Government Service with effect from 11th August, 2008.

RAJ KUMAR, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

New Delhi, the 2nd July 2012

No. 02 (F. No. A-32012/3/2011-Ad.II-B)—The President is pleased to promote the following officers from the level of Chemical Examiner Grade II, and to appoint them to the level of Chemical Examiner Grade I in Central Revenue Control Laboratory (CRCL) under Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis w.e.f. the date mentioned against their names in column '3' :—

Sl. No.	Name	Date of joining in the post of Chemical Examiner Gr. I
1.	Smt. Meenakshi Gupta	23.02.2012
2.	Sh. K. C. Pillai	12.10.2011
3.	Sh. V. B. Chaurasia	23.09.2011
4.	Sh. Sharvan Kumar Mittal	22.09.2011
5.	Sh. A. P. Srivastava	22.09.2011
6.	Smt. Rita Saxena	22.09.2011
7.	Sh. R. K. Varshney	03.10.2011

B. K. MANTHAN, Under Secy.

No. 03 (F. No. A-32012/3/2011-Ad.II-B)—The President is pleased to promote Shri S. C. Surana from the level of Chemical Examiner Grade II, and to appoint him to the level of Chemical Examiner Grade I in Central Revenue Control Laboratory (CRCL) under Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance in PB-3, (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in officiating capacity w.e.f. 22.09.2011.

B. K. MANTHAN, Under Secy.

The 5th July 2012

No. 04 (F. No. A-32012/6/2012-Ad.II-B)—The President is pleased to promote Shri P. T. Chacko from the level of Assistant Director (OL) and to appoint him to the level of Deputy Director (OL) in Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis w.e.f. 07.07.2011.

B. K. MANTHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 20th June 2012

No. A. 12011/7/2009-Admn.II—In pursuance of the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, No. 18/12/2009-EO (SM.I) dated 15.06.2012, the President is pleased to extend the tenure of Smt. Omita Paul as Advisor to the Finance Minister, beyond 25.06.2012 to be co-terminus with the tenure of Shri Pranab Mukherjee as Finance Minister.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 27th June 2012

No. A. 19011/6/2012-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Garg, IAS (KL:94) as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 27th June, 2012 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 14th June 2012

No. A-19012/2/2007-DRT (Pt)—On completion of his tenure, Shri D. Stanley David, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Madurai will demit the charge of the post of Presiding Officer w.e.f. 19th June, 2012 (A.N.).

RAJIV SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 9th July 2012

No. PFG(991)/2011-Ad.I—In terms of Department of Personnel & Training's Order No. 3/1/2012-CS-I(D)(P.II) dated 05.07.2012, the President is pleased to appoint Shri K. Gurumurthy, an officer of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) to the post of Senior Selection Grade (Director) in the Ministry of Corporate

Affairs w.e.f. the forenoon of 9th July, 2012 in Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- (GP).

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

[DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)]

New Delhi, the 26th June 2012

No. A-35013/1/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Shri Valeti Premchand, IDES (1994), as Director under Central Staffing Scheme, in the Department of Commerce (Supply Division) with effect from the forenoon of June 22, 2012, for a period of five years i.e. upto the afternoon of June 21, 2017 or until further orders, whichever event takes place earlier, as conveyed by DoP&T vide their O.M. No. 10/14/2011-EO(MM-I), dated June 5, 2012.

2. Shri Valeti Premchand, IDES (1994), is posted as Director (Administration), DGS&D, vice Shri Sharvan Kumar, CPES (98) with effect from the same date i.e. June 22, 2012 (F/N).

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 2nd July 2012

No. A-19011/789/2012-E.I—The President is pleased to appoint Shri Vijay Shankar Madan, IAS (UT:81) as Additional Secretary & Financial Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 2nd July, 2012, until further orders.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 8th June 2012

No. A-38011/2/2012-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri D. K. Sharma, Assistant Director (A/cs) stands retired from the service of the Government of India with effect from 31.05.2012.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 18th June 2012

No. A-23011/08/2012-HR-II—The President is pleased to appoint Ms. Pushpa Saroha as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS for the Select List Year 2010 on regular basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 01.05.2012 (FN), in pursuance

of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 3/3/2011-CS.-II (A), dated 20.03.2012.

2. Ms. Pushpa Saroha, PPS is taken on the strength of Department of Fertilizers against the existing vacancy.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

New Delhi, the 2nd July 2012

No. 12011/06/2012-Estt. (NPPA)—On attaining the age of superannuation Shri K. K. Jain, Director (M&S) has retired from Government Service w.e.f. 30.06.2012(AN).

SANJAY CHHABRA, Under Secy.

No. 12011/05/2012-Estt. (NPPA)—On attaining the age of superannuation Shri Om Prakash, Member Secretary has retired from Government Service w.e.f. 30.06.2012(AN).

SANJAY CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 26th June 2012

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Ms. Jasvinder Kaur, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Ms. Usha Kapoor, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Ms. Anuradha Sharma, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Sh. Subhash Chander, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Ms. Shashi Bala Verma, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Sh. Ram Kishore, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for

regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Sh. Narender Kumar, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Sh. Sunil Sharma, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Sh. Rajesh Kumar, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 6/5/2011-CS.-I(S) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Section Officers Grade in respect of Sh. R. P. Sood, Assistant is extended upto 31.12.2012 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS.

3. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. R. K. Gupta is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. S. K. Basu is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. Mukesh Kumar is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 15th June, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. C. A. Joseph

is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. K. Balan Nair is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. H. K. Wadhwa is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. Ashish Malhotra is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Ms. Sarita Taneja is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS.-I(U) dated the 29th May, 2012, the ad-hoc period in the Under Secretary in respect of Sh. R. K. Saxena is extended upto 31.05.2013 or till posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc appointment is subject to the conditions as mentioned in DoP&T's Orders dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 28th June 2012

No. A-12025/01/2011-NTH (Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Animesh Das to the Post of Scientist SB (Phy-Civil) in the National Test House, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 26.04.2012(F.N.).

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 4th July 2012

No. A-12011/03/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/10/2012-CS.-I dated 10th May, 2012, the President is pleased to appoint Shri S. K. Vij, Section Officer of CSS Cadre in the Department of Agriculture & Cooperation as Section Officer of CSS Cadre in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of 4,800/- with effect from the forenoon of 28 June, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL
RESEARCH)

New Delhi-110016, the 29th June 2012

No. A-38018/01/2012-Estt.—The President is pleased to retire Shri Chandi Prasad, Principal Private Secretary, Department of Scientific and Industrial Research from Govt. Service on 30th June, 2012 on his attaining the age of superannuation.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 20th June 2012

No. 23012/02/2012-IFS.-II—Ms. Dipika Goyal, an Indian Forest Service Probationer of 2010 batch is permitted to change her name from Dipika Goyal to Dipika Bajpai

consequent upon her marriage with Shri Krishna Bajpai and henceforth be known as Dipika Bajpai for official purposes.

S. S. BADHAWAN, Director

The 22nd June 2012

No. 17013/08/2011-IFS.II—Whereas Select List for promotion from State Forest Service of Chhattisgarh to the Indian Forest Service for the year 2007-A containing the names of Shri Suresh Prasad Paikra and Shri Sobran Singh Kanwar as approved by the Union Public Service Commission under Regulation 7(3) of IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 was notified vide this Ministry's reference No. 17013/6/2010-IFS.II dated 23rd December, 2010.

2. Whereas as per provisions of Rule 8(1) of IFS (Recruitment) Rules, 1966 read with Regulation 9(1) of IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 appointment of aforesaid officers was effected vide this Ministry communication No. 17013/6/2010-IFS.II dated 11th February, 2011.

3. Whereas Shri B. P. Singh, an SFS officer of Chhattisgarh who was in the eligibility list of Select List 2007-A was assessed as 'Unfit' by the Selection Committee due to a penalty imposed upon him.

4. Whereas the penalty imposed upon Shri B. P. Singh was subsequently set aside by the State Government on 01.01.2011 on his Appeal Application.

5. Whereas Shri B. P. Singh filed an Application No. 59/2011 in CAT – Principal Bench, New Delhi which in its order dated 25.08.2011 directed for holding a Review Selection Committee meeting for considering his induction into Indian Forest Service.

6. And whereas the Review Selection Committee held in compliance with the direction of Hon'ble Tribunal on 23rd February, 2012 recommended inclusion of Shri B. P. Singh in the Select List of 2007-A and the UPSC approved the same as per provisions of Regulation 7(3) of IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 vide letter No. 10/25/(1)/2012-AIS dated 14th May, 2012.

7. Now, therefore, Shri Bhanu Pratap Singh is included in the Select List of 2007-A of Indian Forest Service in State of Chhattisgarh. The revised Select List will now be as follows :—

S. No.	Names	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Suresh Prasad Paikra	02.12.1963
1A.	Bhanu Pratap Singh	01.05.1964
2.	Sobran Singh Kanwar	01.07.1963

S. S. BADHAWAN, Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 25th June 2012

No. A-12025/98/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ruchi Gupta to the Medical Officers Grade of Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in temporary capacity with effect from the afternoon of 29.08.2007 until further orders. Dr. Ruchi Gupta is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Ruchi Gupta shall be on probation for two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi, the 22nd July 2012

No. A-31013/3/2011-CHS-V—The President is pleased to appoint substantively the following Specialist Gr. II of Non-Teaching sub-cadre of the Central Health Service, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of initial Appointment as Specialist Gr. II	Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	Dr. Madhu Dayal, Anaesthesia	24.09.2007	24.09.2008
2.	Dr. Namita Arora, Anaesthesia	28.08.2007	28.08.2008
3.	Dr. Arun Krishna, Medicine	22.05.2008	22.05.2009
4.	Dr. Prem Chaudhary, Medicine	30.10.2009	30.10.2010
5.	Dr. Sanjay Naiding, Medicine	09.03.2010	09.03.2011
6.	Dr. Lata Kapoor, Micro-Biology	10.11.2008	10.11.2009
7.	Dr. Shalini Malhotra, Micro-Biology	25.11.2007	25.11.2008
8.	Dr. Malini R. Kapoor, Micro-Biology	12.03.2008	12.03.2009
9.	Dr. Simrita Singh, Micro-Biology	07.11.2008	07.11.2009
10.	Dr. Ravinder Singh Sethi, Nuclear-Medicine	17.01.2007	17.01.2008
11.	Dr. Saritha Shamsunder, Obst & Gynae.	29.11.2006	29.11.2007
12.	Dr. Deepak Joshi, Orthopaedics	17.09.2008	17.09.2009
13.	Dr. Sugandha Arya, Paediatrics	03.11.2009	03.11.2010
14.	Dr. Anurag Aggarwal, Paediatrics	26.10.2009	26.10.2010

1	2	3	4
15.	Dr. Keshram Meena, Paediatrics	16.11.2009	16.11.2010
16.	Dr. Nakhat Jameel Mazhari, Pathology	30.01.2008	30.01.2009
17.	Dr. Hemlatha Ramdoss, Pathology	31.12.2008	31.12.2009
18.	Dr. R. P. Beniwal, Psychiatry	29.12.2009	29.12.2010
19.	Dr. Uttam Kumar, Dermatology	03.06.2009	03.06.2010
20.	Dr. Shashank Shekhar, Dermatology	14.05.2009	14.05.2010
21.	Dr. Sneh Jayant, Surgery	24.08.2007	24.08.2008
22.	Dr. Manoj Kumar Dokaniya, Surgery	07.05.2008	07.05.2009
23.	Dr. Devdatta Poddar, Surgery	01.07.2008	01.07.2009
24.	Dr. Nikhil Talwar, Surgery	01.10.2009	01.10.2010
25.	Dr. Ashok Kumar Sharma, Surgery	03.09.2009	03.09.2010

AMARJEET SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 23rd May 2012

No. 12023/10/2009-E.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ramesh Kumar, Sr. DES, KVK, Sonipat [presently on deputation to the post of Deputy Commissioner (INM) in the Department] to the post of Additional Commissioner (NRM/RFS) in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/-, PB-4 (pre-revised Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/-) on short term contact basis w.e.f. the forenoon of 1st May, 2012 to 30th May, 2013 or until further orders, whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 7th June 2012

No. 27-3010/2012-E.I—The President is pleased to appoint Shri Siraj Hussain, IAS (UP : 79) as Additional Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation with effect from the afternoon of 7th June, 2012 until further order.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

The 12th June 2012

No. 11013/1/2009-E.I—The President is pleased to appoint Shri Prashant S. Lokhande, IAS (AGMUT : 2001) as Private Secretary to Hon'ble Agriculture Minister (Shri Sharad Pawar) w.e.f. the afternoon of 08.06.2012 on lateral shift basis for the remaining period of his tenure of 5 years as Private Secretary i.e. up to 25.07.2015 or on co-terminus basis or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

The 22nd June 2012

No. 27-3012/2012-E.I—Consequent upon her inclusion in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List for the Year 2011, and in pursuance of Department of Personnel & Training's Office Order No. 3/1/2012-CS.I (D) dated 19th June, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Padmaja Singh in the Senior Selection Grade (Director) of CSS in Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay Rs. 8,700/- in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from 20th June, 2012.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd July 2012

No. 4-10/2011-Extn.—The President is pleased to appoint Shri C. S. Mathad, Assistant Editor (English), Directorate of Extension, New Delhi, to the post of Joint Director (Farm Information), G.C.S., Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the same Directorate on regular promotion basis, with effect from the forenoon of 23.05.2012.

R. S. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th June 2012

No. A-32011/9/2006-E.I—The President is pleased to appoint Ms. Vrinda Sarup, IAS (UP : 81), as Additional Secretary in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development w.e.f. forenoon of 5th June, 2012.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 29th June 2012

No. A-32011/3/2011-E.I—The President is pleased to appoint Ms. Amita Sharma, IAS (MP : 81), as Additional Secretary in the Department of Higher Education, Ministry

of Human Resource Development with effect from the forenoon of 29th June, 2012.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 2nd May 2012

No. 5-2/2012-Admn.—Consequent upon inclusion of their names to the grade of Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Select List for the year 2010 vide DoPT's OM. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint the following regular Private Secretaries (PS) as Principal Private Secretary (PPS) on regular basis in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the CSSS cadre of Ministry of Women and Child Development with effect from the date given against each of them :—

Sl. No.	Name	SL Year	Date of Joining
1.	Ms. Leela Raghvan	1993	26.3.2012 (FN)
2.	Sh. Shyam Sunder	1994	22.3.2012 (FN)
3.	Ms. Rupa Sharma	1996	21.3.2012 (FN)
4.	Ms. Bimla	1996	21.3.2012 (FN)

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 28th June 2012

No. 5-1/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/4/2007-EO (MM.I) dated 27th June, 2012, the President is pleased to extend the term of Smt. Kalyani Chadha, IRSME (86), Director in the Ministry of Women and Child Development for a period of one year beyond 25.6.2012 i.e. upto 25.6.2013.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

No. 4-23/1987-Admn.—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt. Kaushalya Devi, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government service with effect from 30.06.2012 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 28th June 2012

No. 18-39/2011-A&A—The President is pleased to appoint the following two Assistant Director of Archives, National Archives of India, New Delhi to the post of Deputy Director of Archives on Promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3)+ Grade pay of

Rs. 7,600/- with effect from the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Dr. Ansarul Haque	02.05.2012 (forenoon)
2.	Shri Rajesh Verma	02.05.2012 (forenoon)

2. The abovementioned officers will be on probation for two years with effect from the dates of their appointment in the grade of Deputy Director of Archives, which can be extended further, if necessary, at the discretion of the Competent Authority.

GHULAM MUSTAFA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 27th June 2012

No. A-19011/04/2008-Estt.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri K.M. Acharya, IAS (MP : 74), Secretary, in the Ministry of Social Justice & Justice & Empowerment, stands retired from Government Service w.e.f. 30th June, 2012 (afternoon).

S. K. MALIK, Under Secy.

New Delhi-110001, the 4th July 2012

No. A-12022/2/2007-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel and Training's letter No. 4/26/2012-EO(SM.I) dated 27.06.2012, the President is pleased to appoint Shri Anil Goswami, IAS (JK:78) as Secretary in the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. 02.07.2012 (forenoon). He will also hold the additional charge of the post of Secretary, Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, until further orders.

VEERENDRA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th June 2012

No. 19012/05/2004-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri Devendra Deorari, Section Officer (ad-hoc) in the Ministry of Tribal Affairs retires from the Government service on superannuation with effect from the afternoon of 30.06.2012.

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

The 2nd July 2012

No. 19011/6/2012-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office

Order No. 12016/1/(STS)/2011-ISS dated 29.05.2012, the President is pleased to appoint Shri Deep Narayan Mandal to the post of Deputy Director in the Ministry of Tribal Affairs in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 01.06.2012. Shri Mandal has resumed his duties w.e.f. 01.06.2012.

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION
TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 29th June 2012

No. 4(506)/91-Pers.I—On attaining the age of superannuation Smt. Seethalakshmi Sridhar, Dy. Director (Emp. Code-291), Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communication & Information Technology retires from service on 30.06.2012

GIRISH SAHAI, Joint Director

No. 4(418)/88-Pers.I—On attaining the age of superannuation Shri T.K. Sarkar, Scientist 'G' (Emp. Code-113), in the Department of Electronics & Information Technology will stand retired from service with effect from 30.06.2012

GIRISH SAHAI, Joint Director

No. 4(295)/85-Pers.I—On attaining the age of superannuation Shri Ramdeen Choudhari, Scientist 'E' (Emp. Code-188), in the Department of Electronics & Information Technology will stand retired from service with effect from 30.06.2012

GIRISH SAHAI, Joint Director

NATIONAL INFORMATICS CNETRE

New Delhi-110003, the 2nd July 2012

No. PF/3721/NIC/2012-Adm-I—The President is pleased to accept the technical resignation of Dr. P.K. Suri, Emp. Code-3721, from the post of Scientist 'F', National Informatics Centre Hqrs., New Delhi with effect from the afternoon of 02.07.2012 to take up the appointment in Delhi Technological University as a Professor and he stands relieved from his duties from the same day. Dr. P.K. Suri is directed to report at Delhi Technological University, Delhi.

R. M. NAIR, Jt Director (Adm. I)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO. E(GP)2003/1/49—In partial modification of Notification No. E(GP)2004/1/49 dated 14.08.2008, the

appointment of Shri Biprojit Dutta to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) on N.F. Railway in the 2005-06 panel, may be treated as cancelled.

2. The President is now pleased to appoint Shri Biprojit Dutta, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 14.09.2006 on N.F. Railway in the 2004-05 panel.

R. C. JAT, Secretary
(Railway Board)

The 28th June 2012

No. E(GP)2008/3/13(Law)—The President is pleased to appoint the following 4 Group 'B' officers of Law Department of Indian Railways as Senior Law Officers in Group 'A'/Senior Scale on regular basis with effect from 10.05.2012:—

PANEL FOR 2009-10

Shri R.P. Biswas
(working in Eastern Railway)

PANEL FOR 2010-11

S/Shri

1. A.K. Thakur
(working in South Eastern Railway)
2. M.R. Satpathy
(working in East Coast Railway)
3. A.K. Mishra
(belongs to North Central Railway presently working in CORE/ALD)

R.C. JAT, Secretary
(Railway Board)

The 29th June 2012

No. 2010/E(O)II/25/2—Shri Dinanath Prasad, West Bengal Judicial Service, is provisionally appointed as ~~Competent~~ Authority, Metro Railway, Kolkata, for a period of one year w.e.f. 12.03.2012 (FN).

R. C. JAT, Secretary
(Railway Board)

The 5th July 2012

No. E(O)III-2012/RN/23—Consequent upon his permanent absorption in HMRDC, Shri A.K. Jagannadham (DOB: 18.07.1954, DITS: 02.01.1983) a Senior Administrative Grade officer of the Indian Railway Traffic Service has resigned from Railway service with effect from 14.06.2010.

R. C. JAT, Secretary
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 19th June 2012

No. A-12026/3/2006-HA—The President is pleased to appoint Shri Bhim Rao Kirtane, IRS (IT:2002) on deputation as Deputy Director General in the office of the Directorate General of Shipping, Mumbai, with effect from 04.06.2012 (FN) for a period of five years, or until further orders which event takes place earlier.

P. SASIKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 8th June 2012

No. A-11013/2/2011-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer's) O.M. No. 1/13/2009-EO(MM-I) dated 07.06.2012, the President is pleased to appoint Shri N. Venkataraman, as Officer on Special Duty (OSD) to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri Jitin Prasada), at Director level in Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- Grade Pay w.e.f 20.01.2011 (FN) and for the balance period of his approved tenure of five years i.e. up to 31.05.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or till further orders, whichever occurs at the earliest.

H.R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 5th July 2012

No. 15/2012. F.No. A-38012/1/2012-Adm.I—Shri Rashpal Singh, Assistant Director, Central Electricity Authority Officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th June, 2012 on attaining the age of superannuation.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd June 2012

No. 10/2012 F. No. 25/1(4)/2012-E.I—On the results of the Engineering Services Examination, 2010, the President is pleased to appoint Shri Saurabh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group 'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 25.01.2012 (FN).

2. Shri Saurabh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

No. 11/2012 F. No. 25/1(1)/2012-E.I—On the results of the Engineering Services Examination, 2010, the President is pleased to appoint Shri Ankit Dudeja to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group 'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 07.03.2012 (FN).

2. Shri Ankit Dudeja will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

No. 11/2012 F. No. 25/1(5)/2012-E.I—On the results of the Engineering Services Examination, 2010, the President is pleased to appoint Shri Vasanthakumar V. to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group 'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 01.05.2012 (FN).

2. Shri Vasanthakumar V. will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 9th July 2012

No. A-32013/03/2011-F(A)—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Shri Anil Kumar N., Senior Branch Manager, Films Division to the post of Officer-in-Charge of Distribution, General Central Service post, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis with effect from the forenoon of 14th June, 2012.

S. B. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 29th June 2012

No. A-22011/2/2012-Admn.I—In partial modification of this Ministry's Gazette Notification No. A-22017/1/2007-Admn.I dated 17th August, 2010, the President is pleased to extend the central deputation tenure of Shri Mahmood Ahmed, IP&TA&FS (1993) Director in the Ministry of Urban Development till 27.11.2014.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012